



**VIKALP  
SECURITIES LIMITED**

Date:15/07/2024

To,  
BSE Limited  
Corporate Relations Department,  
Phiroze Jeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai – 400 001.  
Scrip Code: 531334

Sub: Pre-offer Advertisement cum corrigendum

Ref: Open offer to acquire up to 7,93,500 (Seven Lakh Ninety Three Thousand Five Hundred) equity shares of 10.00/- (Rupees Ten Only) each representing 26.00% of the total paid-up, issued and subscribed capital of "Vikalp Securities Limited" ("Target Company") at a price of 25.00/- each (Rupee Twenty Five Only) (Offer Price) for each fully paid up shares by Deepakbhai Patel, (Acquirer No. 1), Kamuben Patel (Acquirer No. 2) and Priyam Shah (PAC).

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject, we, Vikalp Securities Limited ("the target company") are submitting herewith the enclosed copies of Newspaper Advertisements in respect of Pre-Offer Advertisement in relation to the open offer to the public shareholders of the Target Company ("Open Offer).

The information was published in the following editions on July 15, 2024.

Name Of Newspaper	Dated	Languages	Edition
Financial Express	15/07/2024	English, Gujarati	All
Jansatta	15/07/2024	Hindi	All
Aaj	15/07/2024	Hindi	Kanpur
Pratakhal	15/07/2024	Marathi	Mumbai

This is for your information and records.

Thanking You,

Your Faithfully,  
For, Vikalp Securities Limited

Nida Khatoun  
Company Secretary & Compliance Officer  
Encl:a/a



# INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED

Date: July 15, 2024

To,  
Vikalp Securities Limited  
25/38 Karachi Khana, Kanpur,  
Uttar Pradesh, India, 208001

Dear Sir/Madam,

**Sub: Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum**

**Ref: Open offer to acquire up to 7,93,500 (Seven Lakh Ninety Three Thousand Five Hundred) equity shares of Rs. 10.00/- (Rupees Ten Only) each representing 26.00% of the total paid-up, issued and subscribed capital of "Vikalp Securities Limited" ("Target Company") at a price of Rs. 25.00/- each (Rupee Twenty Five Only) (Offer Price) for each fully paid-up shares by Deepakbhai Patel, (Acquirer No. 1), Kamuben Patel (Acquirer No. 2) and Priyam Shah (PAC).**

We, Interactive Financial Services Limited, Category – I Merchant Banker, have been appointed as a "Manager to the Offer" by Deepakbhai Patel, (Acquirer No. 1), Kamuben Patel (Acquirer No. 2) and Priyam Shah (PAC), for their proposed acquisition of 7,93,500 equity shares representing 26.00% of total issued, subscribed and paid up capital of "Vikalp Securities Limited" from the Shareholders each at a price of ₹ 25.00/- each (Rupee Twenty Five Only) (Offer Price) for each fully paid up shares in pursuant to Regulation 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The shares of the company are listed at BSE Limited (BSE) and Calcutta Stock Exchange (CSE).

Further to Inform you Letter of Offer has already been dispatched to the shareholders of Target Company through registered post on July 09, 2024 and E-mail on July 09, 2024 and pursuant to Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 "Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum" is published in same newspaper where the Detail Public Statement of the open offer was published. We are enclosing herewith a soft copy for your kind perusal and the Copy of IDC along with soft copy (Compact Disc) has already been sent to your good offices.

Please take above submission on your record and oblige us.

For, Interactive Financial Services Limited



Jaini Jain  
Compliance Officer

Encl: A/a



**Regd Office:** Office No. 508, Fifth Floor, Priviera, Nehru Nagar, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India

**CIN:** L65910GJ1994PLC023393, **PH. No.** +91-9898055647, +91 79 4908 8019 **SEBI Reg. No.:** INM000012856

**Website:** www.ifinservices.in, **E-mail:** info@ifinservices.in



# VIKALP SECURITIES LIMITED

CIN: L68200UP1986PLC00772Z

(Regd. Office: 25/38 Karachi Khana, Kanpur, Uttar Pradesh, India, 208001)

Tel No. +91 9336810132 | Website: www.vikalpsecurities.com | E-Mail: vikalpsecuritieslimited@gmail.com

**Open offer for acquisition of up to 7,93,500 (Seven Lakh Ninety Three Thousand Five Hundred) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10.00 each ("Equity Shares"), representing 26.00% of the voting share capital of VIKALP SECURITIES LIMITED ("Target Company") from the public shareholders of the Target Company by Deepakbhai Patel (Acquirer No.1), Kamuben Patel (Acquirer No.2) and Priyam Shah (PAC) at an offer price of ₹ 25.00/- (Rupees Twenty Five Only), with an intention to acquire control over the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulations 3(2) and applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereof (the "SEBI (SAST) Regulations") (the "Open Offer" or "Offer").**

This advertisement ("Offer Opening Public Announcement") in accordance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations and Corrigendum to Detailed Public Statement is being issued by Interactive Financial Services Limited (The "Manager to the Offer") on behalf of Deepakbhai Patel (Acquirer No.1), Kamuben Patel (Acquirer No.2) and Priyam Shah (PAC) in respect of the open offer to the Equity Shareholders of Vikalp Securities Limited (hereinafter referred as the "Target Company"). This Pre Offer Advertisement cum Corrigendum should be read in conjunction with the (a) Public Announcement Dated April 15, 2024 ("PA"); (b) Detailed Public Statement ("DPS") which was published in all editions of Financial Express (English and Gujarati), Jansatta (Hindi), Pratnahal (Marathi) (Maharashtra edition) and Aaj (Hindi) (Kanpur Edition) On April 23, 2024; (c) Draft Letter of Offer dated April 30, 2024 (DLOF); (d) Letter of Offer along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement dated July 05, 2024 (LOF). This Advertisement cum Corrigendum is being published in all newspaper in which the DPS was published.

The capitalised terms used in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum have the meaning assigned to them in the LOF, unless otherwise specified.

- The Offer Price is being ₹ 25.00/- (Rupees Twenty-Five Only) per Equity share of the Target Company, payable in cash in accordance with Regulation 9(1) of SEBI (SAST) Regulations. There has been no revision in the Offer Price.
- The Committee of the Independent Directors of the Target Company ("IDC") published its recommendations on the Offer on July 11, 2024 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The offer is not a competing offer in terms of the Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Share on the Identified Date i.e. July 02, 2024 has been completed through Registered post on July 09, 2024 and E-mail on July 09, 2024. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all the Holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers, PAC and Promoters) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period.
- Please note that a copy of Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement along with Form SH-4 Securities Transfer Form) is also available on website of SEBI at ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)). Registered/unregistered shareholders if they may also apply on the form of acceptance download from the SEBI website. Further in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance cum acknowledgment, the application can be made on plain paper along with the following details and to be sent to Registrar to the offer: Name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in Point 8.1.15 and 8.1.16 of the LoF.

The Procedure for tendering Equity Shares in the Offer are as below:

**a) In case the shares are held in physical form:**

Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.1.16 (page 26) of the LoF.

**b) In case the shares are held in demat form**

Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.1.15 (page 26) of the LoF.

Public Shareholders can send/deliver the Form of Acceptance cum acknowledgement duly signed along with all the relevant documents at registered office of the Registrar (Bigshare Services Private Limited) at Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093, Maharashtra, India. during the working hours on or before the date of closure of the Tendering period in accordance with the procedure as set out in Letter of Offer. For further details, the Public Shareholders are requested to refer to Part 8 titled "Procedure for Acceptance and Settlement" on page 24 of the LoF.

- In accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was filed to SEBI on April 30, 2024. The Final Observations received from SEBI dated June 28, 2024 bearing reference no SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2024/213668/1 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulation.

**7. Material updates since the date of the Public Announcement:**

There are no material updates in relation to this open offer since the date of Public Announcement

- As on the date of the Letter of Offer, to the best of the knowledge and belief of the Acquirers and PAC, there are no statutory or other approvals required to acquire the Equity Shares by the Acquirers along with the PAC validly tendered pursuant to this Open Offer. However, in case of any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
- Revised Schedule of Activity is as follow:

Activity	Tentative Schedule		Revised Schedule	
	Day*	Date*	Day	Date
Date of Public Announcement	Monday	April 15, 2024	Monday	April 15, 2024
Date of publishing of Detailed Public Statement	Tuesday	April 23, 2024	Tuesday	April 23, 2024
Last date of filing Draft Letter of Offer with SEBI	Tuesday	April 30, 2024	Tuesday	April 30, 2024
Last date for public announcement for competing offer(s)	Wednesday	May 15, 2024	Wednesday	May 15, 2024
Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager)	Wednesday	May 22, 2024	Friday	June 28, 2024
Identified Date	Monday	May 27, 2024	Tuesday	July 2, 2024
Date by which Letter of Offer to be dispatched to the Shareholders	Monday	June 3, 2024	Tuesday	July 9, 2024
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Friday	June 7, 2024	Monday	July 15, 2024
Last date by which the committee of Independent Directors of the Target Company shall give its recommendations	Thursday	June 6, 2024	Friday	July 12, 2024
Advertisement of schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchanges and Target Company at its registered office	Friday	June 7, 2024	Monday	July 15, 2024
Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Monday	June 10, 2024	Tuesday	July 16, 2024
Date of Expiration of Tendering Period (Offer Closing Date)	Monday	June 24, 2024	Tuesday	July 30, 2024
Last date of communicating of rejection / acceptance and payment of consideration for accepted tenders / return of unaccepted shares	Monday	July 8, 2024	Tuesday	August 13, 2024
Issue of post offer advertisement	Monday	July 1, 2024	Tuesday	August 6, 2024
Last date for filing of final report with SEBI	Monday	July 15, 2024	Wednesday	August 21, 2024

**10. Other Information:**

- The Acquirers and PAC accept full responsibility for the information contained in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum and also for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI SAST Regulations.
- A copy of this Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum shall also be available on the SEBI website at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in).

**ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER:**



**INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED**

Address: 508, Fifth Floor, Priviera, Nehru Nagar, Manekbag, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India

Tel No.: +079 49088019 | Mob.: +91-9898055647 | Web Site: [www.ifinservices.in](http://www.ifinservices.in) | Email: [mbd@ifinservices.in](mailto:mbd@ifinservices.in)

Contact Person: Ms. Jaini Jain

SEBI Reg No: INM000012856

**FOR AND ON BEHALF OF ACQUIRERS AND THE PAC: Deepakbhai Patel (Acquirer No. 1), Kamuben Patel (Acquirer No. 2) and Priyam Shah (PAC)**

Place: Ahmedabad

Date: July 15, 2024



ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED				
Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. Corporate Office: ICICI HFC Tower, J. B. Nagar, Andheri-Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400059. CIN: U65922MH1999PLC120106, Website: www.icicifhc.com, E-mail: hfsecrctrial@icicifhc.com				
Un-audited financial results for the three months ended June 30, 2024				
Sr. No.	Particulars	Three months ended June 30, 2024	Three months ended June 30, 2023	Year ended March 31, 2024
		Un-Audited	Un-Audited	Audited
1.	Total Income from Operations	7,330.7	5,884.9	26,407.8
2.	Net Profit/(Loss) for the period / year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,511.0	1,357.2	7,384.5
3.	Net Profit/(Loss) for the period / year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,511.0	1,357.2	7,384.5
4.	Net Profit / (Loss) for the period / year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,169.3	1,052.3	5,723.2
5.	Total Comprehensive Income for the period / year [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,299.3	1,208.9	6,112.1
6.	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹10/-)	13,315.4	12,035.3	12,035.3
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)*	26,264.5	16,942.7	21,847.1
8.	Securities Premium Account	5,172.1	1,452.2	1,452.2
9.	Net worth**	35,427.8	25,131.7	29,795.8
10.	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	205,339.4	162,114.7	188,251.3
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA
12.	Debt Equity Ratio	5.2	5.6	5.6
13.	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)***			
	1. Basic:	0.93	0.87	4.76
	2. Diluted:	0.93	0.87	4.76
14.	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
15.	Debt Redemption Reserve	NA	NA	NA
16.	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
17.	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

\* Includes Securities Premium amount as disclosed in point no. 8 in above table.  
\*\* Net worth at June 30, 2024, has been computed as per section 215(7) of the Companies Act, 2013, thereby excluding reserves created out of revaluation of assets and deferred expenditures from total equity of the Company. The previous period numbers have been updated accordingly.  
\*\*\* EPS is not annualised for interim period.

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the BSE Ltd. under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations) and subsequent amendments thereof. The full format of the quarterly financial results is available on the website of the BSE Ltd. at www.bseindia.com and the Company at www.icicifhc.com.
- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meeting held on July 12, 2024.
- The members at its Annual General Meeting held on May 14, 2024, approved the payment of final dividend of ₹ 0.50 per equity share aggregating to ₹ 601.8 million for the year ended March 31, 2024, as recommended by Board of Directors of the Company at its meeting held on April 20, 2024.
- As the Company operates in a single business segment, segment-wise reporting is not applicable.
- During the three months ended June 30, 2024, the Company had not received any complaint from its NCD/Bond investors and there is no investor complaint pending for redressal at the beginning and at the end of the above period. The shares of the Company are not listed at the stock exchange.
- For the other line items referred in regulation 52 (4) of the SEBI LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the BSE Ltd. and can be accessed on the www.bseindia.com.
- Pursuant to notification issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) on Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 dated August 16, 2019 and subsequent amendments thereof, the issuer being registered as Housing Finance Company (HFC) with National Housing Bank, is not required to create Debenture Redemption Reserve (DRR). Creation of Capital Redemption Reserve (CRR) is not applicable to the Company.
- The Company has not issued Redeemable Preference Shares.
- The previous period/year figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to the current period presentation.

**For ICICI Home Finance Company Limited**  
Sd/-  
**Vineeta Rajadhyaksha**  
Managing Director & CEO  
DIN - 10483840

Place : Mumbai  
Date : July 12, 2024

FORM G		INFORMATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR "SUPERMAX PERSONAL CARE PRIVATE LIMITED" OPERATING IN INDUSTRY OF RAZORS AND BLADES HAVING FACTORIES AT THANE, BHIWADI AND HYDERABAD	
(Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)			
RELEVANT PARTICULARS			
1.	Name of the corporate debtor along with PAN/ CIN/ LLP No.	Supermax Personal Care Private Limited CIN: U27310MH2010PTC207411 PAN: AAOCS7144Q	
2.	Address of the registered office	Mumbai Agra Road Naupada P O Wagle INDL Estate, Thane, Maharashtra - 400604	
3.	URL of website	https://www.supermaxibc.com/	
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	At the factories situated at Thane, Arham Plant Bhiwadi and Hyderabad	
5.	Installed capacity of main products/ services	Double Edge Blades : 15.2 million units per day Systems and Disposable : 1.5 million units per day	
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Rs. 459.24 Crores (Turnover as per audited financials of F.Y. 2021-22) Quantity: data not available	
7.	Number of employees/ workmen	Employees : 465, Workmen : 2242, Total : 2707	
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	Available at - https://www.supermaxibc.com/	
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:		
10.	Last date for receipt of expression of interest	30.07.2024	
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	09.08.2024	
12.	Last date for submission of objections to provisional list	14.08.2024	
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	24.08.2024	
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	29.08.2024	
15.	Last date for submission of resolution plans	28.09.2024	
16.	Process email id to submit EOI	supermax.abc@gmail.com	

**Note :** 1) The above timelines are subject to grant of extension of the CIRP period by the Hon'ble NCLT

**Sd/-**  
**CA Kshitiz Gupta**  
Resolution Professional for Supermax Personal Care Private Limited  
IP Reg. No. IBB/PA-002/IP-N00721/2018-19/12140  
F-52, First Floor, Centrium Mall, Lokhandwala Township, Kandivli East, Mumbai - 400101

Date : 15.07.2024  
Place : Mumbai

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Markolines®	
Markolines Pavement Technologies Limited	
CIN: U99999MH2002PLC156371	Registered Office: 502, A Wing, Shree Nand Dham, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra, 400614
Website: www.markolines.com	Contract: +91-22-62661111
CORRIGENDUM TO NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING WHICH IS SCHEDULED TO HELD ON 25.07.2024.	
This Corrigendum is being issued in connection to the Notice of Extra Ordinary General Meeting dated July 03, 2024 which has been sent to all the shareholders on July 03, 2024. The following alterations/modifications in the Notice are hereby notified through this corrigendum to all the shareholders:	
This is to notify you that the following typographical errors have been amended, clarified, and corrected in the Explanatory Statement for Items No. 2 in Point No. 1 and No. 3 in Point No. 1.	
It is hereby clarified that this statement be read as under:	
<b>Explanatory Statement of Item No.2</b>	
1. <b>Objects of the Preferential Issue: The object of the issue are :-</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>The Company requires infusion of funds for enhancement of its capital base and to augment the long-term funding needs viz., to support the expansion of business and purchases equipment, machinery and for general corporate purposes and working capital requirements and repayment of existing loans. - Rs. 42,15,64,000/-</li> <li>To meet general corporate purpose which shall not exceed 25% of the Issue Size i.e. Not exceeding Rs. 11,00,00,000/-</li> </ul>	
Any amount in excess unutilised portion of the receipt under general corporate purpose will be utilised by the Company for meeting its working capital requirement. The said proceeds will be used within a period of 12 months from the date of receipts of funds or from the date the funds can be utilised, whichever is later. Till the time the proceeds are not utilised by the Company, it will be kept in a Separate Bank Account of the Company.	
<b>Explanatory Statement of Item No.3</b>	
1. <b>Objects of the Preferential Issue: The object of the issue are :-</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>The Company requires infusion of funds for enhancement of its capital base and to augment the long-term funding needs viz., to support the expansion of business and purchases equipment, machinery and for general corporate purposes and working capital requirements and repayment of existing loans. - Rs. 19,91,16,000/-</li> <li>To meet general corporate purpose which shall not exceed 25% of the Issue Size i.e. Not exceeding Rs. 6,00,00,000/-</li> </ul>	
Any amount in excess unutilised portion of the receipt under general corporate purpose will be utilised by the Company for meeting its working capital requirement. The said proceeds will be used within a period of 12 months from the date of receipts of funds or from the date the funds can be utilised, whichever is later. Till the time the proceeds are not utilised by the Company, it will be kept in a Separate Bank Account of the Company.	
This corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with the notice. The Corrigendum to the notice is also being placed on Company's website www.markolines.com	
All other contents of the notice remain unchanged.	
<b>For Markolines Pavement Technologies Limited</b> Sd/- <b>Sanjay Bhanudas Patil</b> Managing Director DIN: 00229052	
Place: Mumbai	Date: 12/07/2024

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of offer dated 30<sup>th</sup> May, 2024 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



## NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED

(CIN- L15510MH2013PLC249458)

Our Company was incorporated as "Nakoda Group of Industries Private Limited" at Nagpur, Maharashtra as a Private Limited Company under the provision of Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated October 22, 2013 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. On July 18, 2016 our Company acquired the business of proprietorship concerns of our promoter Mr. Pravin Kumar Choudhary viz. M/s. Navkar Processors through Takeover agreement. Consequently, business of this proprietorship firm was merged into our company. Subsequently our Company was converted into a public limited company pursuant to special resolution passed by the members in Extraordinary general meeting held on January 19, 2017 and the name of our Company was changed to "Nakoda Group of Industries Limited" vide a Fresh Certificate of Incorporation dated February 06, 2017, issued by Registrar of Companies, Maharashtra Mumbai. The Corporate Identification Number (CIN) of the Company is L15510MH2013PLC249458. For further details please refer to the section titled "General Information" beginning on page 46 of this Letter of offer.

Registered Office: 239, Bagad Ganj, Nagpur - 440008, Maharashtra, India

Tel: +91-07122778824, Email id: info@nakodas.com, Website: www.nakodas.com

Contact Person: Mr. Jayesh Choudhary, Whole Time Director

### PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. PRAVIN NAVALCHAND CHOUDHARY AND MR. JAYESH CHOUDHARY

ISSUE OF UPTO 50,90,056 PARTLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED ("NGLI" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 25 PER EQUITY SHARE (INCLUDING PREMIUM OF RS. 15 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING RS. 1272.51 LACS@ TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 4 (FOUR) PARTLY PAID UP EQUITY SHARES FOR EVERY 10 (TEN) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. 30<sup>th</sup> MAY, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS 2.5 TIMES OF FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 151 OF THIS LETTER OF OFFER.

@assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to the Rights Equity Shares.

### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Thursday, 13<sup>th</sup> June, 2024 and closed on Friday, 28<sup>th</sup> June, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Monday, 24<sup>th</sup> June, 2024. Out of the total 1,885 Applications for 1,35,97,728 Rights Equity Shares, 639 Applications for 8,41,169 Rights Equity Shares were rejected on grounds of "technical reasons" as disclosed in the Letter of Offer. The total numbers of valid applications were 1,246 for 1,23,36,477 Rights Equity Shares, which was 242.36% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. Our Company in consultation with Registrar to the Issue and National Stock Exchange of India Limited, the Designated Stock Exchange on Friday, July 05, 2024, approved the Basis of Allotment for 50,90,056 partly paid-up Rights Equity Shares to the successful applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid applications have been considered for allotment.

### 1. The break-up of valid applications received through ASBA (after Technical Rejections) is given below:

Applicants	Number of valid applications received	Number of Rights Equity Shares Allotted - against Entitlement (A)	Number of Rights Equity Shares Allotted - Against valid additional shares (including fractional shares accepted) (B)	Number of Rights Equity Shares Allotted - (A+B)
Eligible Equity Shareholders	1,038	9,19,959	12,41,521	21,61,480
Renounees	208	29,28,576	0	29,28,576
<b>Total</b>	<b>1,246</b>	<b>38,48,535</b>	<b>12,41,521</b>	<b>50,90,056</b>

### 2. Information regarding applications received:

Category	Valid Applications Received		Equity Shares Applied for			Equity Shares Allotted		
	Number	%	Number	Value (In Rs.)	%	Number	Value (In Rs.)	%
Eligible Equity Shareholders	1,038	83.31%	71,98,785	4,49,92,406.25	58.35%	21,61,480	1,35,09,250	42.46%
Renounees	208	16.69%	51,37,692	3,21,10,575	41.65%	29,28,576	1,83,03,600	57.54%
<b>Total</b>	<b>1,246</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,23,36,477</b>	<b>7,71,02,981.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,90,056</b>	<b>3,18,12,850</b>	<b>100.00%</b>

**Intimations for Allotment / Refund / Rejections Cases:** The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, has been completed on July 11, 2024. The instructions to (i) Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds in case of ASBA applications were given on July 06, 2024. The listing application was executed with BSE and NSE on 08<sup>th</sup> July, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees has been completed with NSDL and CDSL on July 11, 2024. No physical shares were allotted in the Rights Issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE and NSE, the Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence trading on BSE on or about July 18, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on July 12, 2024 and July 11, 2024 respectively.

### INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

**DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI:** The Draft Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is less than Rs. 5000.00 lakhs. The present Issue being of less than Rs. 5,000 lakhs, our Company is in compliance with first proviso to Regulation 3 of the SEBI ICDR Regulations and our Company shall file the copy of the Letter of Offer prepared in accordance with the SEBI ICDR Regulations with SEBI for information and dissemination on the website of SEBI i.e. www.sebi.gov.in.

**DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (Designated Stock Exchange):** It is to be distinctly understood that the permission given by NSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of NSE" beginning on page 145 of the LOF.

**DISCLAIMER CLAUSE OF BSE:** It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 145 of the LOF.

**THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.**

### REGISTRAR TO THE ISSUE

	<b>Bigshare Services Private Limited</b>
	Office No S6-2, 6 <sup>th</sup> Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai-400093.
	Tel No.: +91 22-62638200
	Website: www.bigshareonline.com
	E-mail ID: investor@bigshareonline.com/rightsissue@bigshareonline.com
	Contact Person: Mr. Suraj Gupta SEBI Registration No: INF000001385

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company for any pre-Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

**For Nakoda Group of Industries Limited**  
On Behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
**Mr. Jayesh Choudhary**  
Whole Time Director  
DIN: 02426233

Date: July 12, 2024  
Place: Nagpur, Maharashtra

**Disclaimer:** Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer dated May 30, 2024 with the Securities and Exchange Board of India, BSE and NSE. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 24 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

PRE OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVER) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC ANNOUNCEMENT WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF

## VIKALP SECURITIES LIMITED

CIN: L68200UP1986PLC007727

(Regd. Office: 25/38 Karachi Khana, Kanpur, Uttar Pradesh, India, 208001)

Tel No. +91 933610132 | Website: www.vikalpsecurities.com | E-Mail: vikalpsecuritieslimited@gmail.com

Open offer for acquisition of up to 7,93,500 (Seven Lakh Ninety Three Thousand Five Hundred) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10.00 each ("Equity Shares"), representing 26.00% of the voting share capital of VIKALP SECURITIES LIMITED ("Target Company") from the public shareholders of the Target Company by Deepakbhai Patel (Acquirer No.1), Kamuben Patel (Acquirer No.2) and Priyam Shah (PAC) at an offer price of ₹ 25.00/- (Rupees Twenty Five Only), with an intention to acquire control over the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulations 3(2) and applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereof (the "SEBI (SAST) Regulations") (the "Open Offer" or "Offer").

This advertisement ("Offer Opening Public Announcement") in accordance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations and Corrigendum to Detailed Public Statement is being issued by Interactive Financial Services Limited (The "Manager to the Offer") on behalf of Deepakbhai Patel (Acquirer No.1), Kamuben Patel (Acquirer No.2) and Priyam Shah (PAC) in respect of the open offer to the Equity Shareholders of Vikalp Securities Limited (hereinafter referred as the "Target Company"). This Pre Offer Advertisement cum Corrigendum should be read in conjunction with the (a) Public Announcement Dated April 15, 2024 ("PA"); (b) Detailed Public Statement ("DPS") which was published in all editions of Financial Express (English and Gujarati), Jansatta (Hindi), Pratahkal (Marathi) (Maharashtra edition) and Aaj (Hindi) (Kanpur Edition) on April 23, 2024; (c) Draft Letter of Offer dated April 30, 2024 (DLOF); (d) Letter of Offer along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement dated July 05, 2024 (LOF). This Advertisement cum Corrigendum is being published in all newspaper in which the DPS was published.

The capitalised terms used in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum have the meaning assigned to them in the LOF, unless otherwise specified.

- The Offer Price is being ₹ 25.00/- (Rupees Twenty-Five Only) per Equity share of the Target Company, payable in cash in accordance with Regulation 9(1) of SEBI (SAST) Regulations. There has been no revision in the Offer Price.
- The Committee of the Independent Directors of the Target Company ("IDC") published its recommendations on the Offer on July 11, 2024 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The Offer is not a competing offer in terms of the Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Share on the Identified Date i.e. July 02, 2024 has been completed through Registered post on July 09, 2024 and E-mail on July 09, 2024. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all the Holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers, PAC and Promoters) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period.
- Please note that a copy of Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement along with Form SH-4 Securities Transfer Form) is also available on website of SEBI at (www.sebi.gov.in). Registered/unregistered shareholders if they may also apply on the form of acceptance download from the SEBI website. Further in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance cum acknowledgement, the application can be made on plain paper along with the following details and to be sent to Registrar to the offer: Name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in Point 8.1.15 and 8.1.16 of the LOF.
- The procedure for tendering Equity Shares in the Offer are as below:
  - In case the shares are held in physical form:**  
Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.1.16 (page 26) of the LOF.
  - In case the shares are held in demat form:**  
Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.1.15 (page 26) of the LOF.  
Public Shareholders can send/deliver the Form of Acceptance cum acknowledgement duly signed along with all the relevant documents at registered office of the Registrar (Bigshare Services Private Limited) at Office No. S6-2, 6<sup>th</sup> Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai-400 093, Maharashtra, India, during the working hours on or before the date of closure of the Tendering period in accordance with the procedure as set out in Letter of Offer. For further details, the Public Shareholders are requested to refer to Part 8 titled "Procedure for Acceptance and Settlement" on page 24 of the LOF.
- In accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was filed to SEBI on April 30, 2024. The Final Observations received from SEBI dated June 28, 2024 bearing reference no SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2024/21368/1 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulation.
- Material updates since the date of the Public Announcement:**  
There are no material updates in relation to this open offer since the date of Public Announcement
- As on the date of the Letter of Offer, to the best of the knowledge and belief of the Acquirers and PAC, there are no statutory or other approvals required to acquire the Equity Shares by the Acquirers along with the PAC validly tendered pursuant to this Open Offer. However, in case of any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
- Revised Schedule of Activity is as follow:

Activity	Tentative Schedule		Revised Schedule	
	Day*	Date*	Day	Date
Date of Public Announcement	Monday	April 15, 2024	Monday	April 15, 2024
Date of publishing of Detailed Public Statement	Tuesday	April 23, 2024	Tuesday	April 23, 2024
Last date of filing Draft Letter of Offer with SEBI	Tuesday	April 30, 2024	Tuesday	April 30, 2024
Last date for public announcement for competing offer(s)	Wednesday	May 15, 2024	Wednesday	May 15, 2024
Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager)	Wednesday	May 22, 2024	Friday	June 28, 2024
Identified Date	Monday	May 27, 2024	Tuesday	July 2,



## તુનવાલ ઈ-મોટર્સનો આઈપીઓ આજે જાહેર ભરણાં માટે ખુલશે

તુનવાલ ઈ-મોટર્સનો આઈપીઓ ૧૫ જુલાઈ, ૨૦૨૪ થી ૧૮ જુલાઈ, ૨૦૨૪ સુધી જાહેર ભરણાં માટે ખુલ્લો રહેશે. આ આઈપીઓ રૂ ૧૧૫.૬૪ કરોડની કિંમત ડિસ્ક્રિપ્શન પ્રાઇસ આઈપીઓ છે. તેમાં કુલ રૂ ૮૧.૭૨ કરોડના ૧૩૮.૫ લાખ શેરનો નવો આઈપીઓ અને ૫૭.૫ લાખ શેરની ઓફર-ફોર-સેલનો સમાવેશ થાય છે. જે કુલ રૂ ૩૩.૮૩ કરોડ છે. આઈપીઓ માટે આઈપીઓની કિંમત રૂ ૧૫૮ પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. એપ્લિકેશન માટેનું ન્યૂનતમ લોટ સાઇઝ ૨૦૦૦ શેર છે. રિટેલ રોકાણકારોને જરૂરી રોકાણની

ઓછામાં ઓછી રકમ રૂ ૧,૧૮,૦૦૦ છે. ડિઝાઇનિંગ, વિકાસ, ઉત્પાદન અને વિતરણમાં નિષ્ણાત છે. કંપનીએ વિવિધ જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે સ્થાનિક બજારમાં ૨૩ થી વધુ વિવિધ મોડેલો રજૂ કર્યા છે. કંપની ૨૫૬ થી વધુ ડીલરોના નેટવર્ક દ્વારા ૧૮ રાજ્યોમાં તેની હાજરી ધરાવે છે.

**ભારતીય કન્ટેનર નિગમ લિમિટેડ**  
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.  
(ભારત સરકાર એ કંપની)  
(A Govt. of India Undertaking)  
(A Navratna Company)

ICD, Tughlakabad, New Delhi - 110 020  
**PUBLIC AUCTION/TENDER NOTICE**  
**DISPOSAL OF UNCLEARED/UNCLAIMED IMPORTED CARGO THROUGH E-AUCTION**

Container Corporation of India Ltd. shall be auctioning scrap items, empty damage containers and unclaimed/uncleared imported cargo landed at the terminals of Area 1 and Area 4 those containers arrived on or before 31.01.2024 through e-auction on 29.07.2024 on "AS IS WHERE IS BASIS". All details along with Terms & Conditions of auction sale & cargo details will be available on [www.concorindia.co.in](http://www.concorindia.co.in) & [www.msicccommerce.com](http://www.msicccommerce.com) w.e.f. 15.07.2024. All importers including Government Undertakings/Departments whose containers/goods are lying unclaimed/uncleared and falling in the said list uploaded in website at respective terminals, because of any dispute, stay by Court/Tribunal or others or any such reason may accordingly inform the concerned Executive Director at Area 1 and Area 4 CONCOR as well as Commissioner of Customs of the concerned Commissionaries, and file their objections/claims regarding disposal of such goods within 7 (Seven Days) of this notice falling which the goods will be auctioned on "AS IS WHERE IS BASIS" without any further notice. For full details please log on to [www.concorindia.co.in](http://www.concorindia.co.in) & [www.msicccommerce.com](http://www.msicccommerce.com)  
Executive Director, Area 1

**KMML The Kerala Minerals and Metals Ltd**  
(A Govt. of Kerala Undertaking) Sankaramangalam, Kollam 691593  
Phone: 0476-2651218 to 217 e-mail: [md@kmml.com](mailto:md@kmml.com)

**TENDER NOTICE**

For more details please visit E-Tendering Portal, <https://tenders.kerala.gov.in> or [www.kmml.com](http://www.kmml.com)

No.	Tender ID	Item
1.	2024_KMML_679352	For the supply of 80,000/- Nos of Polythene Product Bags
2.	2024_KMML_679953	For the supply of Pipe spool PTFE both ends flanged
3.	2024_KMML_679327	For the supply of Support Roller with Shaft (in assembled condition) for k-302 Calciner Cooler-4 Nos
4.	2024_KMML_680328	For the supply of Nose Ring for Roaster-1 No
5.	2024_KMML_680021	For the supply of PTFE Lined Plug Valves and Teflon Sleeved Plug valves
6.	2024_KMML_680221	For the supply of Stack Segments for New Roaster
7.	2024_KMML_679812	For the supply of Stack Segments for Old Roaster
8.	2024_KMML_679699	For fabrication & supply of Sulphuric Acid Storage Tank F-57
9.	2024_KMML_679690	For the supply of Three Phases Relay Test System

Chavara 12.07.2024 Sd/- Managing Director for The Kerala Minerals and Metals Ltd.

PRE OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVER) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC ANNOUNCEMENT WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF

## VIKALP SECURITIES LIMITED

CIN: L68200UP1986PLC007727  
(Regd. Office: 25/38 Karachi Khana, Kanpur, Uttar Pradesh, India, 208001)  
Tel No. +91 9336610132 | Website: [www.vikalpsecurities.com](http://www.vikalpsecurities.com) | E-Mail: [vikalpsecuritieslimited@gmail.com](mailto:vikalpsecuritieslimited@gmail.com)

Open offer for acquisition of up to 7,93,500 (Seven Lakh Ninety Three Thousand Five Hundred) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10.00 each ("Equity Shares"), representing 26.00% of the voting share capital of VIKALP SECURITIES LIMITED ("Target Company") from the public shareholders of the Target Company by Deepakbhai Patel (Acquirer No.1), Kamuben Patel (Acquirer No.2) and Priyam Shah (PAC) at an offer price of ₹ 25.00/- (Rupees Twenty Five Only), with an intention to acquire control over the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulations 3(2) and applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereof (the "SEBI (SAST) Regulations") (the "Open Offer" or "Offer").

This advertisement ("Offer Opening Public Announcement") in accordance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations and Corrigendum to Detailed Public Statement is being issued by Interactive Financial Services Limited (The "Manager to the Offer") on behalf of Deepakbhai Patel (Acquirer No.1), Kamuben Patel (Acquirer No.2) and Priyam Shah (PAC) in respect of the open offer to the Equity Shareholders of Vikalp Securities Limited (hereinafter referred as the "Target Company"). This Pre Offer Advertisement cum Corrigendum should be read in conjunction with the (a) Public Announcement Dated April 15, 2024 ("PA"); (b) Detailed Public Statement ("DPS") which was published in all editions of Financial Express (English and Gujarati), Jansatta (Hindi), Pratahkal (Marathi) (Maharashtra edition) and Aaj (Hindi) (Kanpur Edition) on April 23, 2024; (c) Draft Letter of Offer dated April 30, 2024 (DLOF); (d) Letter of Offer along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement dated July 05, 2024 (LOF). This Advertisement cum Corrigendum is being published in all newspaper in which the DPS was published.

The capitalised terms used in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum have the meaning assigned to them in the LOF, unless otherwise specified.

- The Offer Price is being ₹ 25.00/- (Rupees Twenty-Five Only) per Equity share of the Target Company, payable in cash in accordance with Regulation 9(1) of SEBI (SAST) Regulations. There has been no revision in the Offer Price.
- The Committee of the Independent Directors of the Target Company ("IDC") published its recommendations on the Offer on July 11, 2024 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The offer is not a competing offer in terms of the Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Share on the Identified Date i.e. July 02, 2024 has been completed through Registered post on July 09, 2024 and E-mail on July 09, 2024. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all the Holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers, PAC and Promoters) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period.
- Please note that a copy of Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement along with Form SH-4 Securities Transfer Form) is also available on website of SEBI at ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)). Registered/unregistered shareholders if they may also apply on the form of acceptance download from the SEBI website. Further in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance cum acknowledgement, the application can be made on plain paper along with the following details and to be sent to Registrar to the offer: Name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in Point 8.1.15 and 8.1.16 of the LOF. The Procedure for tendering Equity Shares in the Offer are as below:
  - In case the shares are held in physical form:**  
Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.1.16 (page 26) of the LOF.
  - In case the shares are held in demat form**  
Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.1.15 (page 26) of the LOF. Public Shareholders can send/deliver the Form of Acceptance cum acknowledgement duly signed along with all the relevant documents at registered office of the Registrar (Bigshare Services Private Limited) at Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093, Maharashtra, India, during the working hours on or before the date of closure of the Tendering period in accordance with the procedure as set out in Letter of Offer. For further details, the Public Shareholders are requested to refer to Part B titled "Procedure for Acceptance and Settlement" on page 24 of the LOF.
- In accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was filed in SEBI on April 30, 2024. The Final Observations received from SEBI dated June 28, 2024 bearing reference no SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/W/2024/21368/1 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulation.
- Material updates since the date of the Public Announcement:**  
There are no material updates in relation to this open offer since the date of Public Announcement
- As on the date of the Letter of Offer, to the best of the knowledge and belief of the Acquirers and PAC, there are no statutory or other approvals required to acquire the Equity Shares by the Acquirers along with the PAC validly tendered pursuant to this Open Offer. However, in case of any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
- Revised Schedule of Activity is as follows:

Activity	Tentative Schedule		Revised Schedule	
	Day*	Date*	Day	Date
Date of Public Announcement	Monday	April 15, 2024	Monday	April 15, 2024
Date of publishing of Detailed Public Statement	Tuesday	April 23, 2024	Tuesday	April 23, 2024
Last date of filing Draft Letter of Offer with SEBI	Tuesday	April 30, 2024	Tuesday	April 30, 2024
Last date for public announcement for competing offer(s)	Wednesday	May 15, 2024	Wednesday	May 15, 2024
Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager)	Wednesday	May 22, 2024	Friday	June 28, 2024
Identified Date	Monday	May 27, 2024	Tuesday	July 2, 2024
Date by which Letter of Offer to be dispatched to the Shareholders	Monday	June 3, 2024	Tuesday	July 9, 2024
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Friday	June 7, 2024	Monday	July 15, 2024
Last date by which the committee of Independent Directors of the Target Company shall give its recommendations	Thursday	June 6, 2024	Friday	July 12, 2024
Advertisement of schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchanges and Target Company at its registered office	Friday	June 7, 2024	Monday	July 15, 2024
Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Monday	June 10, 2024	Tuesday	July 16, 2024
Date of Expiration of Tendering Period (Offer Closing Date)	Monday	June 24, 2024	Tuesday	July 30, 2024
Last date of communicating of rejection / acceptance and payment of consideration for accepted tenders / return of unaccepted shares	Monday	July 8, 2024	Tuesday	August 13, 2024
Issue of post offer advertisement	Monday	July 1, 2024	Tuesday	August 6, 2024
Last date for filing of final report with SEBI	Monday	July 15, 2024	Wednesday	August 21, 2024

**10. Other Information:**

- The Acquirers and PAC accept full responsibility for the information contained in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum and also for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI SAST Regulations.
- A copy of this Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum shall also be available on the SEBI website at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in).

**ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER:**  
**INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED**  
Address: 508, Fifth Floor, Priviera, Nehru Nagar, Manekbag, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India  
Tel No. : +079 99088019 | Mob. : +91-9898055647 | Web Site : [www.ifinservices.in](http://www.ifinservices.in) | Email : [mdbd@ifinservices.in](mailto:mdbd@ifinservices.in)  
Contact Person: Ms. Jaina Jain  
SEBI Reg No : INM00012856


**FOR AND ON BEHALF OF ACQUIRERS AND THE PAC: Deepakbhai Patel (Acquirer No. 1), Kamuben Patel (Acquirer No. 2) and Priyam Shah (PAC)**  
Place: Ahmedabad Date: July 15, 2024

**RELIGARE**  
Values that bind

Presents

## The Indian EXPRESS AQQA

**WHERE NEWSMAKERS DROP IN FOR A CANDID CHAT.**



**Viswanathan Anand**



**Aruna Anand**



**Arjun Erigaisi**

**Anat Goenka**  
Executive Director  
The Indian Express Group

**Amit Kamath**  
Assistant Editor, Sports  
The Indian Express

in conversation with

Associate Partner **vendolite**  
University Partner **ICEAI GROUP**

**સરકારી છાત્રાલયોમાં પ્રવેશ માટે ઓનલાઇન મેરીટ પ્રસિદ્ધિ**

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ દસ્તકંબા

**ગુજરાત સમરસ છાત્રાલય સોસાયટી નિયામક અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ**

સંચાલિત સરકારી છાત્રાલયોમાં વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના પ્રવેશ માટે ઓનલાઇન પારદર્શક મેરીટ પ્રસિદ્ધિ

**માન. કેબીનેટ મંત્રી શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરીયા**

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા, મહિલા અને બાળ કલ્યાણના વરદહસ્તે અને **માન. રાજ્યકક્ષાના મંત્રી શ્રી ભીખુસિંહજી પરમાર**

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠાની ઉપસ્થિતિમાં વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં ૧૫૮ છાત્રાલયોમાં પ્રવેશ માટે ઓનલાઇન પારદર્શક મેરીટ પ્રસિદ્ધિ

**ગુજરાત સમરસ છાત્રાલય સોસાયટી ગાંધીનગર દસ્તકંબા ૨૧ સમરસ કુમાર-કલ્યા છાત્રાલયોના ૧૩,૫૦૦ છાત્રોના પ્રવેશ અંગેની મેરીટ પ્રસિદ્ધિ**

**નિયામક અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ ગાંધીનગર દસ્તકંબા ૭૮ સરકારી કુમાર-કલ્યા છાત્રાલયોના ૫,૮૭૫ છાત્રોના પ્રવેશ અંગેની મેરીટ પ્રસિદ્ધિ**

**નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ગાંધીનગર દસ્તકંબા ૫૬ સરકારી કુમાર-કલ્યા છાત્રાલયોના ૩,૪૪૦ છાત્રોના પ્રવેશ અંગેની મેરીટ પ્રસિદ્ધિ**

તારીખ: ૧૫-૦૭-૨૦૨૪ | સમય: ૧૬:૦૦ વાગે  
સ્થળ: સ્વયંચિંત સંકુલ-૧નો, પહેલો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

“સાજમાં સૌ ગૌરવભરે જીવન જીવી શકે, સાજમાં સમરસ વાતાવરણ બને, દરેક ક્ષેત્રે સૌનો વિકાસ થાય તે માટે ગુજરાત સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે.”

- શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરીયા, માન. મંત્રી, સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા, મહિલા અને બાળ કલ્યાણ

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ, ગુજરાત સરકાર



हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार-125005 (हरियाणा)
ईमेल: info@hisarmetal.com; वेबसाइट: www.hisarmetal.com

फोन: (01662) 220067, 220367, 220738 फैक्स: (01662) 220265
सॉफ्टवेयर: L74899HR1990PLC030937

सूचना
सूचित किया जाता है कि हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएन: L74899HR1990PLC030937) प्रत्येक रु. 10/- अंकित मूल्य के 5400000 इक्विटी शेयरों में प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 5,40,00,000/- (पांच करोड़ बासीस लाख रुपये मात्र) विभाजित के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है और इसे बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में व्यापार के लिए अनुमति भी दी गई है।

यह विज्ञापन व्यापक जनहित में दिया जाता है।
कृपे हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
इसका/-
(विशेष सूचारु सूच)
कंपनी साक्षि

SAANVI ADVISORS LIMITED ("TARGET COMPANY")

CIN: L74140GJ1981PLC084205
Registered Office: 304, Shoppers Plaza V Govt. Servants Hsg. Society Ltd Opp. Municipal Market, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat-380009 IN
Website: www.saanviadvisors.in; Email: saopharshifin@gmail.com; Telephone No. 07948904153

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF 5,22,730 (FIVE LAKHS TWENTY-TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED AND THIRTY) EQUITY SHARES FROM SHAREHOLDERS OF SAANVI ADVISORS LIMITED BY MR. DEV SETHI (ACQUIRER-1) AND DYS ROYALS PRIVATE LIMITED (ACQUIRER-2) (HEREIN AFTER JOINTLY REFER TO AS "ACQUIRERS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(1) & 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011")

Recommendations of the Committee of Independent Directors (ICD) on the Open Offer to the Shareholders of the Target Company under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 in relation to the open offer made by Mr. Dev Sethi (Acquirer-1) And Dys Royals Private Limited (Acquirer-2) (Herein After Jointly Refer To As "Acquirers") For Acquisition Of 5,22,730 (Five Lakh Twenty Two Thousand Seven Hundred and Thirty) Equity Shares of Rs 10/-each, to public shareholders of Saanvi Advisors Limited ("Target Company").

Table with 14 rows and 2 columns: S.No, Details. Contains details of the offer, acquirers, and recommendations.

For on behalf of committee of Independent Directors Saanvi Advisors Limited

Sd/- Mr. Keyoor Bakshi (ICD-Chairperson) DIN: 00133588

Date : 12<sup>th</sup> July, 2024 Place : Ahmedabad

कक्षा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिप्रतिक्रमण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रदर्शन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनसहकारी वित्तसंस्थान लिमिटेड) (प्राइवटाइज्ड) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पंजित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मोग सूचना जारी कर अधोहस्ताक्षरी/सह-अधोहस्ताक्षरी को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि आगे के लागू होने वाले व्याज तथा भुगतान एवं/अथवा वसूली की तिथि तक वसूल की गई अर्थात्किसी खाते, खाते, 'प्राइवटाइज्ड' आदि के साथ उक्त संबंधित नामों के समस्त वित्तीय राशि अधोहस्ताक्षरी को वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

Table with 4 columns: क्र.सं., अग्र.सं., अग्र.सं./सह-अधोहस्ताक्षरी/साइट/मार्टर/नं., 13(2) सूचना तिथि/ तिथि को बकाया देना (रु.), कक्षा की तिथि/राशि एवं प्रकार. Contains details of the class notice.

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी/सह-अधोहस्ताक्षरी/गारंटर/मार्टर/नं. इस बकाया राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अधोहस्ताक्षरी, ऊपर वर्णित तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त निवामवली के नियम के साथ पंजित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त तिथि को यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से अधोहस्ताक्षरी/गारंटर/सह-अधोहस्ताक्षरी/मार्टर/नं. तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित प्रतिभूति परिसम्पत्ति/उक्त सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के धार्मिक अर्थ में न करें।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (अनुसूचित वाणिज्य बैंक)
पंजीकृत कार्यालय: दि फेयरवै, भू एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमेलोर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, इंजीनियर बिजनेस पार्क के बगल में, चल्त्याघटा, बैंगलूर-560071
शाखा कार्यालय: 16/12, 2रा तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोलाबाग, नई दिल्ली-110005

PRE OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVER) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC ANNOUNCEMENT WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF

VIKALP SECURITIES LIMITED
CIN: L68200UP1986PLC007727
(Regd. Office: 25/38 Karachi Khana, Kanpur, Uttar Pradesh, India, 208001)
Tel No. +91 9336810132 | Website: www.vikalpsecurities.com | E-Mail: vikalpsecuritieslimited@gmail.com

Open offer for acquisition of up to 7,93,500 (Seven Lakh Ninety Three Thousand Five Hundred) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10.00 each ("Equity Shares"), representing 26.00% of the voting share capital of VIKALP SECURITIES LIMITED ("Target Company") from the public shareholders of the Target Company by Deepakbhai Patel (Acquirer No.1), Kamuben Patel (Acquirer No.2) and Priyam Shah (PAC) at an offer price of ₹ 25.00/- (Rupees Twenty Five Only), with an intention to acquire control over the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulations 3(2) and applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereof (the "SEBI (SAST) Regulations") (the "Open Offer" or "Offer").

This advertisement ("Offer Opening Public Announcement") in accordance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations and Corrigendum to Detailed Public Statement is being issued by Interactive Financial Services Limited (The "Manager to the Offer") on behalf of Deepakbhai Patel (Acquirer No.1), Kamuben Patel (Acquirer No.2) and Priyam Shah (PAC) in respect of the open offer to the Equity Shareholders of Vikalp Securities Limited (hereinafter referred to as the "Target Company"). This Pre Offer Advertisement cum Corrigendum should be read in conjunction with the (a) Public Announcement Dated April 15, 2024 ("PA"); (b) Detailed Public Statement ("DPS") which was published in all editions of Financial Express (English and Gujarati), Jansatta (Hindi), Pratibha (Marathi) (Maharashtra edition) and Aaj (Hindi) (Kanpur Edition) On April 23, 2024; (c) Draft Letter of Offer dated April 30, 2024 (DLOF); (d) Letter of Offer along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement dated April 30, 2024 (LOF). This Advertisement cum Corrigendum is being published in all newspaper in which the DPS was published.

The capitalised terms used in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum have the meaning assigned to them in the LOF, unless otherwise specified.

- 1. The Offer Price is being ₹ 25.00/- (Rupees Twenty-Five Only) per Equity share of the Target Company, payable in cash in accordance with Regulation 9(1) of SEBI (SAST) Regulations. There has been no revision in the Offer Price.
2. The Committee of the Independent Directors of the Target Company ("IDC") published its recommendations on the Offer on July 11, 2024 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
3. The offer is not a competing offer in terms of the Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
4. The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Share on the Identified Date i.e. July 02, 2024 has been completed through Registered post on July 09, 2024 and E-mail on July 09, 2024. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all the Holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers, PAC and Promoters) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period.
5. Please note that a copy of Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement along with Form SH-4 Securities Transfer Form) is also available on website of SEBI at (www.sebi.gov.in). Registered/unregistered shareholders if they may also apply on the form of acceptance download from the SEBI website. Further in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance cum acknowledgement, the application can be made on plain paper along with the following details and to be sent to Registrar to the offer: Name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in Point 8.1.15 and 8.1.16 of the LOF.
The Procedure for tendering Equity Shares in the Offer are as below:
a) In case the shares are held in physical form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.1.16 (page 26) of the LOF.
b) In case the shares are held in demat form Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.1.15 (page 26) of the LOF. Public Shareholders can send/deliver the Form of Acceptance cum acknowledgement duly signed along with all the relevant documents at registered office of the Registrar (Bigshare Services Private Limited) at Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai -400 093, Maharashtra, India. During the working hours on or before the date of closure of the Tendering period in accordance with the procedure as set out in Letter of Offer. For further details, the Public Shareholders are requested to refer to Part 8 titled "Procedure for Acceptance and Settlement" on page 24 of the LOF.
6. In accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was filed to SEBI on April 30, 2024. The Final Observations received from SEBI dated June 28, 2024 bearing reference no SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2024/21368/1 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulation.
7. Material updates since the date of the Public Announcement: There are no material updates in relation to this open offer since the date of Public Announcement
8. As on the date of the Letter of Offer, to the best of the knowledge and belief of the Acquirers and PAC, there are no statutory or other approvals required to acquire the Equity Shares by the Acquirers along with the PAC validly tendered pursuant to this Open Offer. However, in case of any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
9. Revised Schedule of Activity is as follows:

Table with 3 main columns: Activity, Tentative Schedule (Day, Date), Revised Schedule (Day, Date). Contains a detailed timeline of the offer process.

- 10. Other Information:
• The Acquirers and PAC accept full responsibility for the information contained in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum and also for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI SAST Regulations.
• A copy of this Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum shall also be available on the SEBI website at www.sebi.gov.in.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER: INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED
Address: 508, Fifth Floor, Priviera, Nehru Nagar, Manekbag, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India
Tel No. : +079 49088019 | Mob. : +91-9898055647 | Web Site : www.ifnservices.in | Email : mbd@ifnservices.in
Contact Person: Ms. Jaina Jain
SEBI Reg No : INM000012856
FOR AND ON BEHALF OF ACQUIRERS AND THE PAC: Deepakbhai Patel (Acquirer No. 1), Kamuben Patel (Acquirer No. 2) and Priyam Shah (PAC)
Place: Ahmedabad Date: July 15, 2024

प्रवेश सूचना

राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली

प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार की सी.टी.एस. योजना में अगस्त, 2024 से प्रारम्भ हो रहे सत्र के लिए निम्नलिखित ट्रेडों में दाखिले के लिए रिक्त सीटों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ट्रेड, प्रवेश योग्यता तथा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि के विवरण नीचे दिए गए हैं :

Table with 5 columns: क्र.सं., ट्रेड का नाम, सीटें, प्रशिक्षण की अवधि, प्रवेश योग्यता. Lists trade names, seats, duration, and eligibility.

प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों की उपलब्धता तथा दाखिला शुल्क का विवरण संस्थान की वेबसाइट पर देखें।

- 1. प्रमाण पत्र : पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद, सफल प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT), भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र दिया जाता है, जो कि केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/पीएसयू के अधीन अधीनस्थ पदों और सेवाओं की भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता है।
2. चयन प्रक्रिया : सभी सीटों पर दाखिले पहले आओ तथा पहले पाओ के आधार पर किए जाएंगे।
3. आयु : उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2024 को कम से कम 14 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
4. आवेदन कैसे करें : उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट www.nitcindia.com से प्रवेश पत्र ऑनलाइन भरकर ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विवरणिका को रुपये 200/- का नकद भुगतान करके संस्थान से भौतिक रूप से भी लिया जा सकता है।
नोट : फॉर्म भरते समय रुपये 500/- का अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क भी देय होगा।
5. छात्रवृत्ति : प्रवेश के पश्चात् आय प्रमाण पत्र रखने वाले आरक्षित वर्ग के छात्र भारत सरकार की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
6. बस-पास सुविधा : सरकार छात्रों को 100 रुपये प्रति माह की दर से रियायती बस-पास सुविधा प्रदान करती है, यह दिल्ली में चलने वाली सभी एसी और गैर-एसी बसों में मान्य है।
7. अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट www.nitcindia.com पर लॉग ऑन करें।
8. प्रवेश की अंतिम तिथि : 31 जुलाई, 2024

निदेशक

राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली

30-34, सेवक पार्क, द्वारका मेट्रो स्टेशन, पिलर नं.-771 के सामने, मेन नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली - 110059
व्हाट्स ऐप हेल्पलाइन : 9315138815, 011-42828087 (सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक)

जना स्माल फाइनेंस बैंक (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय : द फेयरवै, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमेलोर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, इंजीनियर बिजनेस पार्क से आगे, चल्त्याघटा, बैंगलूर-560071
क्षेत्रीय शाखा कार्यालय : 16/12, 2सरा तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोला बाग, दिल्ली-110005

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

जैसा कि आप नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानतियों तथा बंधककर्ताओं ने जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से अपनी अचल सम्पत्तियों को बंधक रखकर ऋण ग्रहण किया था। आप सभी के द्वारा की गयी चूक के परिणामस्वरूप आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादन अवस्थिति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जैसा कि अधिनियम के तहत प्रतिभूत लेनदार होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियम, 2002 के नियम 2 के साथ पंजित कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने कॉलम 2 में उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि तथा उस पर भागी व्याज का पुनर्ग्रहण करने को कहते हुए मांग सूचना निर्गत की थी, किन्तु उन्हीं से कुछ के पास विभिन्न कारणां से सूचनाएं सर्व नहीं हो पायीं।

Table with 7 columns: क्र.सं., कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के नाम, ऋण खाता सं. तथा ऋण राशि, प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण, प्रवर्तित एवं मांग सूचना की तिथि, तिथि तक बकाया राशि रु. में. Contains details of debtors and their loans.

एतद्वारा कॉलम सं. 2 में उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती तथा बंधककर्ता को सम्बन्धित कर्जदार/सह-कर्जदार के विरुद्ध कॉलम सं. 6 में प्रदर्शित सम्पूर्ण राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर करने को कहते हुए यह सूचना दी जा रही है क्योंकि कथित राशि कॉलम सं. 6 में प्रदर्शित तिथि तक सम्बन्धित ऋण खाते के सम्बन्ध में बकाया पायी गयी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि बाकी व्याज तथा भुगतान की तिथि तक देव अन्य राशियों सहित सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कॉलम सं. 4 में वर्णित सम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की उचित कार्यवाही के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन कथित फाइनेंसियल के कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के विरुद्ध कानून के तहत जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पास उपलब्ध ऐसे अधिकारों तथा उपायों के पूर्वाहण रहित है, आप कृपया पुनः ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, आपको प्रतिभूत लेनदार की पूर्व अनुमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूति को निस्तारित करने या संयवहार करने अथवा विक्री, पट्टे या अन्याय विधि से हस्तान्तरित करने से प्रतिबन्धित/निषिद्ध किया जाता है।
तिथि : 15.07.2024 स्थान : दिल्ली गा.र.क्षे.
ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड







# भारत का टी-20 सीरीज पर कब्जा

## अंतिम मुकाबले में जिम्बाब्वे को 42 रनों से हराया, 4-1 से जीती सीरीज

हरारे, 14 जुलाई। पांच मैचों की टी-20 सीरीज के अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 42 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। इससे पहले भारतीय टीम ने दूसरे (100 रन), तीसरे (23 रन) और चौथे (10 विकेट) टी-20 मैच में जीत दर्ज की थी।

● हरफनमौला शिवम दुबे चुने गये मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

वहीं, जिम्बाब्वे को पहले मुकाबले में 13 रनों से जीत मिली थी। रिविंकार को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए पांचवें टी-20 मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 167 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे 18.3 ओवर में 10 विकेट पर 125 रन ही बना सकी। भारत ने यह मैच 42 रनों से जीत लिया। इस मैच में शिवम दुबे को उनके ऑनस्ट्राइक प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 26 रन बनाए और दो विकेट चटकाए। वहीं, वाशिंगटन सुंदर को प्लेयर ऑफ द सीरीज 28 रन बनाए और आठ विकेट चटकाए। 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई।



टीम को पहला झटका मुकेश कुमार ने दिया। उन्होंने मधवरे को एक रन के स्कोर पर बोल्ट किया। वह बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इसके बाद मुकेश ने ब्रायन बेनेट को निशाना बनाया और उन्हें शिवम दुबे के हाथों कैच कराया। वह सिर्फ 10 रन बना सके। इसके बाद मोर्चा मारुमानी और मायर्स ने संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी हुई जिसे नौवें ओवर में सुंदर ने तोड़ा। उन्होंने मारुमानी को एलबीडब्ल्यू आउट किया। वह 27 रन बनाकर आउट हुए जबकि मायर्स 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस मैच में सिक्कर रजा

ने आठ, कैपबेले ने चार, मडंडे ने एक, मावुटा ने चार रन बनाए। भारत के खिलाफ इस सीरीज का अपना पहला मैच

● तेज गेंदबाज आवेश खान ने झटके चार विकेट

खेलने वाले फराज अकरम ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। इसके बाद बल्ले से भी चमके। उन्होंने 13 गेंदों में दो चौकों और दो छकों की मदद से 27 रन बनाए। अकरम को 19वें ओवर में मुकेश ने अपना शिकार बनाया।

वहीं, नगरावा ने शून्य और मुजरबानी ने एक रन (नाबाद) बनाया। भारत के लिए मुकेश कुमार ने कुल चार विकेट विकेट चटकाए। उन्होंने मधवरे, बेनेट, अकरम और नगरावा को आउट किया। इसके अलावा शिवम दुबे ने दो विकेट चटकाए जबकि तुषार, सुंदर और अभिषेक को एक-एक सफलता मिली। इससे पहले भारत की शुरुआत इस मुकाबले में शानदार हुई। यशस्वी जायसवाल ने पारी की पहली ही गेंद पर 13 रन बनाए। दरअसल, सिक्कर रजा ने पहली गेंद को फेंकी थी जिस पर जायसवाल ने छक्का जड़ा। इसके बाद

उन्होंने फ्री हिट का फायदा उठाते हुए एक ओवर छक्का लगाया। हालांकि, इस ओवर की चौथी गेंद पर रजा ने उन्हें बोल्ट कर दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी के लिए आए जो सिर्फ 14 रन बना पाए। पावरप्ले में भारत ने तीन विकेट गंवाए। कप्तान गिल का बल्ला भी आज खामोश रहा। वह सिर्फ 13 रन बना पाए।

● विकेटकीपर संजु सैमसन ने खेती अर्द्धशतकीय पारी

इसके बाद मोर्चा संजु सैमसन और रियान पराग ने संभाला। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी हुई। 15वें ओवर में मावुटा ने पराग को अपना शिकार बनाया। वह 22 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, संजु सैमसन 58 रनों की तुफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 39 गेंदों में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक जड़ा। विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपनी इश पारी के दौरान एक चौका और चार छक्के लगाए। इस मैच में शिवम दुबे ने 26 रन बनाए। वहीं, रिकू 11 और सुंदर एक रन बनाकर नाबाद रहे। जिम्बाब्वे के लिए मुजरबानी ने दो विकेट लिए जबकि रजा रिचर्ड और मावुटा को एक-एक विकेट मिला।

## बीसीसीआई से गायकवाड़ को मिली एक करोड़ की सहायता

नयी दिल्ली, 14 जुलाई। क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ वरिष्ठता में ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। 71 साल के दिग्गज का इलाज लंदन में चल रहा था और इसकी जानकारी मिलते ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से मदद का हथ बढ़ाया गया। गायकवाड़ के इलाज के लिए बोर्ड की ओर से 1 करोड़ रुपये की राशि तुरंत दिए जाने का फैसला लिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह की ओर से इसकी जानकारी मिलने के साथ ही तुरंत एक्शन हुआ। उन्होंने परिवारजनों से बात कर दिग्गज के तबीयत का हाल जानकर मदद की घोषणा की। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव की ओर से बताया गया था कि उनके साथी अंशुमान कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। कपिल ने बताया कि उनके साथ खेल चुके अंशुमान को बेहद तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। कपिल ने बीसीसीआई से मदद की गुहार लगाई थी। इस खबर के सामने आने के साथ ही बीसीसीआई सचिव ने अंशुमान गायकवाड़ को 1 करोड़ की मदद पहुंचाने की घोषणा की। बीसीसीआई का यह फैसला पूर्व कप्तान कपिल देव और संदीप पांडे की भावनात्मक अपील के बाद आया है, जिन्होंने बीसीसीआई से गायकवाड़ की मदद करने का आग्रह किया था।

## जोकोविच को हराकर अल्काराज बने विश्वलडन के नये चैम्पियन

नयी दिल्ली, 14 जुलाई। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विश्वलडन 2024 का पुरुष एकल मुकाबला रिविंकार को सबिंया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्काराज के बीच खेला गया। इस मुकाबले में अल्काराज ने सर्वियाई स्टार को सीधे सेटों में हरा दिया। उन्होंने अपने करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके अलावा अपने पिछले ग्रैंड स्लैम खिताब का बचाव किया। उन्होंने अपने करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। फाइनल मैच में अल्काराज ने स्टार टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को सीधे सेटों में 6-2, 6-2, 7-6 से करारी शिकस्त दी। 36 वर्षीय सर्वियाई स्टार के पास अपनी पिछली हार का बदला लेने का सुनहरा मौका था। हालांकि, वह इस मौके को भुना नहीं पाए और अल्काराज ग्रैंड स्लैम खिताब का बचाव करने में कामयाब रहे।

स्वामी ज्ञानमंडल प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक राम अवतार यादव द्वारा आज प्रकाशन यंत्रालय, आदव भवन ७९/७५ बांसमंडी, कानपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। सम्पादक : शार्दूल विक्रम गुप्त कार्यकारी स्थानीय सम्पादक एवं व्यवस्थापक : रामअवतार यादव स्वलाधिकारी-ज्ञानमंडल प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी : संत कबीर रोड, गोरखपुर एवं बैंक रोड, इलाहाबाद : 3 लीड रोड, झांसी : गांधी भवन के सामने, लखनऊ : 1 जर्जिंग रोड, आगरा : महात्मा गांधी रोड, बरेली : रोड नं. 3 परसाखेड़ा, पटना : फ्रेजर रोड, रांची : नामकुम इण्डस्ट्रियल एरिया, जयशंकरपुर : काली माटी रोड वर्ष : 50 संख्या : 17672 डाक पंजी. सं. कानपुर सिटी- 325/2012-14 आर.एन.आई. पंजीयन संख्या- 26521/75 फोन नं. 2342221-22-23 Email: ajprakashan@yahoo.com ajpress2014@gmail.com पी.आर.जी. अधिनियम के अंतर्गत समाचार चयन के लिए स्थानीय सम्पादक जिम्मेदार होंगे तथा समस्त विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे।

## कप्तान शुभमन ने तोड़ा सूर्यकुमार का स्पेशल रिकॉर्ड

नयी दिल्ली, 14 जुलाई। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 टी-20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला रिविंकार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया। कप्तान शुभमन गिल आखिरी मैच में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। उन्होंने 2 चौकों की मदद से 14 गेंदों पर 13 रन बनाए। रिचर्ड नगरावा ने भारतीय कप्तान को विकेट झटका। इसके छोटी से पारी के बाद भी गिल ने सूर्यकुमार यादव का खास रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि, विराट कोहली से पीछे रह गए। शुभमन गिल 5 मैचों की टी-20 सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज में गिल ने 42.50 की औसत और 125.93 की स्ट्राइक रेट से 170 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 अर्द्धशतक भी लगाए। इससे पहले 2023 में सूर्यकुमार यादव ने बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 144 रन बनाए थे। साथ ही 2021 में विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज में बतौर कप्तान 231 रन बनाए थे।

● कप्तान के तौर पर सीरीज में बनाये सर्वाधिक रन

## कार्यालय ग्राम पंचायत कमालपुर विकास खण्ड सरसौल जनपद कानपुर नगर

अल्पकालीन निविदा/कोटेशन सूचना  
समस्त अधिकृत फर्म पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कमालपुर विकास खण्ड सरसौल जनपद कानपुर नगर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार चतुर्थ रा.वि. आयोग/14वीं वित्त आयोग, पंचम रा.वि. आयोग/15वीं वित्त आयोग, एच.एल. डब्ल्यू.एच. आरि आई.सी.डी.एच., अल्लोपैथि स्थल, सामुदायिक शौचालय, पंचायत मठ, मनरेगा एवं अन्य शासकीय मदों के अन्तर्गत निर्माण कराये जाने हेतु निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद निविदा/ कोटेशन आमंत्रित की जाती है इच्छुक फर्म एवं आपूर्तिकर्ता दिनांक 15.07.2024 से दिनांक 18.07.2024 तक कार्यालय दिवस में दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय एवं ग्राम पंचायत में रखे बाक्स में शीलबन्ध निविदा/ कोटेशनदर सहित जमा कर सकते हैं जो कि दिनांक 18.07.2024 को उन्नी दिन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिन के 2 बजे खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/ कोटेशन के अनुसार आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध घनराशि के आधार पर की जायेगी जो समय समय पर प्राप्त आवंटित घनराशि पर आधारित है। आदेशकानुसार सामग्री की पूर्ति ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा बढ़ाई घटाई जा सकती है सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। सामग्री आपूर्ति का गुणवत्ता अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृत के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी. एस.टी. रजिस्ट्रेशन सन्मन्वित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत पी. डब्ल्यू. डी. की दरों के अनुरूप गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप हो सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री के गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की घनराशि से नियमानुसार कटौती की जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत का होगा।

क्रमांक	सामग्री का विवरण	पत्र	दर
1	सैमेट, शौचालय शीट/फूरिन	प्रति ना	
2	मौरम, बावू, डस्ट	घन मीटर	
3	ईट-रोड़ी पत्थर-मिट्टी 03-53एम.एम	घन मीटर	
4	हैडपम्प/नया/रिवोर्स/भरम्मत	ना/फीट	
5	सेनेटरी सामग्री, फनीयर सामग्री	प्रति ना	
6	ईट	प्रति हजार	
7	पेंटिंग सामग्री	प्रति वर्ग मीटर	
8	पी.सी.इण्टरलाकिंग टाइल्स 80एम.एम.	प्रति ना	
9	टाइल्स	प्रति वर्ग मीटर	
10	सरिया एवं लोहा सामग्री	प्रति कु.	
11	विद्युत सामग्री	प्रति ना	

नोट :- ग्राम पंचायत/ई. ग्राम स्वराज की कार्य योजना का विवरण [planningonline.gov.in](http://planningonline.gov.in) पर उपलब्ध है।  
**ग्रा0वि0 सचिव**  
 ग्राम पंचायत कमालपुर  
 वि0ख0 सरसौल कानपुर नगर  
**ग्राम प्रधान (नीलम सिंह)**  
 ग्राम पंचायत कमालपुर  
 वि0ख0 सरसौल कानपुर नगर

## कार्यालय ग्राम पंचायत नागापुर विकास खण्ड सरसौल जनपद कानपुर नगर

अल्पकालीन निविदा/कोटेशन सूचना  
समस्त अधिकृत फर्म पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नागापुर विकास खण्ड सरसौल जनपद कानपुर नगर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार चतुर्थ रा.वि. आयोग/14वीं वित्त आयोग, पंचम रा.वि. आयोग/15वीं वित्त आयोग, एच.एल. डब्ल्यू.एच. आरि आई.सी.डी.एच., अल्लोपैथि स्थल, सामुदायिक शौचालय, पंचायत मठ, मनरेगा एवं अन्य शासकीय मदों के अन्तर्गत निर्माण कराये जाने हेतु निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद निविदा/ कोटेशन आमंत्रित की जाती है इच्छुक फर्म एवं आपूर्तिकर्ता दिनांक 15.07.2024 से दिनांक 18.07.2024 तक कार्यालय दिवस में दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय एवं ग्राम पंचायत में रखे बाक्स में शीलबन्ध निविदा/ कोटेशनदर सहित जमा कर सकते हैं जो कि दिनांक 18.07.2024 को उन्नी दिन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिन के 2 बजे खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/ कोटेशन के अनुसार आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध घनराशि के आधार पर की जायेगी जो समय समय पर प्राप्त आवंटित घनराशि पर आधारित है। आदेशकानुसार सामग्री की पूर्ति ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा बढ़ाई घटाई जा सकती है सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। सामग्री आपूर्ति का गुणवत्ता अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृत के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी. एस.टी. रजिस्ट्रेशन सन्मन्वित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत पी. डब्ल्यू. डी. की दरों के अनुरूप गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप हो सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री के गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की घनराशि से नियमानुसार कटौती की जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत का होगा।

क्रमांक	सामग्री का विवरण	पत्र	दर
1	सैमेट, शौचालय शीट/फूरिन	प्रति ना	
2	मौरम, बावू, डस्ट	घन मीटर	
3	ईट-रोड़ी पत्थर-मिट्टी 03-53एम.एम	घन मीटर	
4	हैडपम्प/नया/रिवोर्स/भरम्मत	ना/फीट	
5	सेनेटरी सामग्री, फनीयर सामग्री	प्रति ना	
6	ईट	प्रति हजार	
7	पेंटिंग सामग्री	प्रति वर्ग मीटर	
8	पी.सी.इण्टरलाकिंग टाइल्स 80एम.एम.	प्रति ना	
9	टाइल्स	प्रति वर्ग मीटर	
10	सरिया एवं लोहा सामग्री	प्रति कु.	
11	विद्युत सामग्री	प्रति ना	

नोट :- ग्राम पंचायत/ई. ग्राम स्वराज की कार्य योजना का विवरण [planningonline.gov.in](http://planningonline.gov.in) पर उपलब्ध है।  
**ग्रा0वि0 सचिव**  
 ग्राम पंचायत नागापुर  
 वि0ख0 सरसौल कानपुर नगर  
**ग्राम प्रधान (राधा देवी)**  
 ग्राम पंचायत नागापुर  
 वि0ख0 सरसौल कानपुर नगर

## कार्यालय ग्राम पंचायत खरौटी विकास खण्ड सरसौल जनपद कानपुर नगर

अल्पकालीन निविदा/कोटेशन सूचना  
समस्त अधिकृत फर्म पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खरौटी विकास खण्ड सरसौल जनपद कानपुर नगर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार चतुर्थ रा.वि. आयोग/14वीं वित्त आयोग, पंचम रा.वि. आयोग/15वीं वित्त आयोग, एच.एल. डब्ल्यू.एच. आरि आई.सी.डी.एच., अल्लोपैथि स्थल, सामुदायिक शौचालय, पंचायत मठ, मनरेगा एवं अन्य शासकीय मदों के अन्तर्गत निर्माण कराये जाने हेतु निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद निविदा/ कोटेशन आमंत्रित की जाती है इच्छुक फर्म एवं आपूर्तिकर्ता दिनांक 15.07.2024 से दिनांक 18.07.2024 तक कार्यालय दिवस में दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय एवं ग्राम पंचायत में रखे बाक्स में शीलबन्ध निविदा/ कोटेशनदर सहित जमा कर सकते हैं जो कि दिनांक 18.07.2024 को उन्नी दिन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिन के 2 बजे खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/ कोटेशन के अनुसार आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध घनराशि के आधार पर की जायेगी जो समय समय पर प्राप्त आवंटित घनराशि पर आधारित है। आदेशकानुसार सामग्री की पूर्ति ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा बढ़ाई घटाई जा सकती है सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। सामग्री आपूर्ति का गुणवत्ता अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृत के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी. एस.टी. रजिस्ट्रेशन सन्मन्वित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत पी. डब्ल्यू. डी. की दरों के अनुरूप गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप हो सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री के गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की घनराशि से नियमानुसार कटौती की जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत का होगा।

क्रमांक	सामग्री का विवरण	पत्र	दर
1	सैमेट, शौचालय शीट/फूरिन	प्रति ना	
2	मौरम, बावू, डस्ट	घन मीटर	
3	ईट-रोड़ी पत्थर-मिट्टी 03-53एम.एम	घन मीटर	
4	हैडपम्प/नया/रिवोर्स/भरम्मत	ना/फीट	
5	सेनेटरी सामग्री, फनीयर सामग्री	प्रति ना	
6	ईट	प्रति हजार	
7	पेंटिंग सामग्री	प्रति वर्ग मीटर	
8	पी.सी.इण्टरलाकिंग टाइल्स 80एम.एम.	प्रति ना	
9	टाइल्स	प्रति वर्ग मीटर	
10	सरिया एवं लोहा सामग्री	प्रति कु.	
11	विद्युत सामग्री	प्रति ना	

नोट :- ग्राम पंचायत/ई. ग्राम स्वराज की कार्य योजना का विवरण [planningonline.gov.in](http://planningonline.gov.in) पर उपलब्ध है।  
**ग्रा0वि0 सचिव**  
 ग्राम पंचायत खरौटी  
 वि0ख0 सरसौल कानपुर नगर  
**ग्राम प्रधान (सुधा देवी)**  
 ग्राम पंचायत खरौटी  
 वि0ख0 सरसौल कानपुर नगर

PRE OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVER) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC ANNOUNCEMENT WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF  
**VIKALP SECURITIES LIMITED**  
 CIN: L68200UP1986PLC007727  
 (Regd. Office: 25/38 Karachi Khana, Kanpur, Uttar Pradesh, India, 208001)  
 Tel No. +91 9336810132 | Website: www.vikalpsecurities.com | E-Mail: vikalpsecuritieslimited@gmail.com

Open offer for acquisition of up to 7,93,500 (Seven Lakh Ninety Three Thousand Five Hundred) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10.00 each ("Equity Shares"), representing 26.00% of the voting share capital of VIKALP SECURITIES LIMITED ("Target Company") from the public shareholders of the Target Company by Deepakbhai Patel (Acquirer No.1), Kamuben Patel (Acquirer No.2) and Priyam Shah (PAC) at an offer price of ₹ 25.00/- (Rupees Twenty Five Only), with an intention to acquire control over the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulations 3(2) and applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereof (the "SEBI (SAST) Regulations") (the "Open Offer" or "Offer").

This advertisement ("Offer Opening Public Announcement") in accordance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations and Corrigendum to Detailed Public Statement is being issued by Interactive Financial Services Limited (The "Manager to the Offer") on behalf of Deepakbhai Patel (Acquirer No.1), Kamuben Patel (Acquirer No.2) and Priyam Shah (PAC) in respect of the open offer to the Equity Shareholders of Vikalp Securities Limited (hereinafter referred to as the "Target Company"). This Pre Offer Advertisement cum Corrigendum should be read in conjunction with the (a) Public Announcement Dated April 15, 2024 ("PA"); (b) Detailed Public Statement ("DPS") which was published in all editions of Financial Express (English and Gujarati), Jansatta (Hindi), Pratahkal (Marathi) (Maharashtra edition) and Aaj (Hindi) (Kanpur Edition) on April 23, 2024; (c) Draft Letter of Offer dated April 30, 2024 (DLOF); (d) Letter of Offer along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement dated July 05, 2024 (LOF). This Advertisement cum Corrigendum is being published in all newspaper in which the DPS was published.

The capitalised terms used in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum have the meaning assigned to them in the LOF, unless otherwise specified.

- The Offer Price is being ₹ 25.00/- (Rupees Twenty-Five Only) per Equity Share of the Target Company, payable in cash in accordance with Regulation 9(1) of SEBI (SAST) Regulations. There has been no revision in the Offer Price.
- The Committee of the Independent Directors of the Target Company ("IDC") published its recommendations on the Offer on July 11, 2024 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The offer is not a competing offer in terms of the Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Share on the Identified Date i.e. July 02, 2024 has been completed through Registered post on July 09, 2024 and E-mail on July 09, 2024. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all the Holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers, PAC and Promoters) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period.
- Please note that a copy of the Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement along with Form SH-4 Securities Transfer Form) is also available on website of SEBI at ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)). Registered/unregistered shareholders if they may also apply on the form of acceptance download from the SEBI website. Further in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance cum acknowledgement, the application can be made on plain paper along with the following details and to be sent to Registrar to the offer: Name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in Point 8.1.15 and 8.1.16 of the LOF. The Procedure for tendering Equity Shares in the Offer are as below:  
 a) In case the shares are held in physical form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.1.16 (page 26) of the LOF.  
 b) In case the shares are held in demat form: Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.1.15 (page 26) of the LOF. Public Shareholders can send/deliver the Form of Acceptance cum acknowledgement duly signed along with all the relevant documents at registered office of the Registrar (Bigshare Services Private Limited) at Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai-400 093, Maharashtra, India. during the working hours on or before the date of closure of the Tendering period in accordance with the procedure as set out in Letter of Offer. For further details, the Public Shareholders are requested to refer to Part 8 titled "Procedure for Acceptance and Settlement" on page 24 of the LOF.  
 6. In accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was filed to SEBI on April 30, 2024. The Final Observations received from SEBI dated June 28, 2024 bearing reference no SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2024/21368/1 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulation.  
 7. Material updates since the date of the Public Announcement:  
 There are no material updates in relation to this open offer since the date of Public Announcement  
 8. As on the date of the Letter of Offer, to the best of the knowledge and belief of the Acquirers and PAC, there are no statutory or other approvals required to acquire the Equity Shares by the Acquirers along with the PAC validly tendered pursuant to this Open Offer. However, in case of any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.  
 9. Revised Schedule of Activity is as follow:

Activity	Tentative Schedule		Revised Schedule	
	Day*	Date*	Day	Date
Date of Public Announcement	Monday	April 15, 2024	Monday	April 15, 2024
Date of publishing of Detailed Public Statement	Tuesday	April 23, 2024	Tuesday	April 23, 2024
Last date of filing Draft Letter of Offer with SEBI	Tuesday	April 30, 2024	Tuesday	April 30, 2024
Last date for public announcement for competing offer(s)	Wednesday	May 15, 2024	Wednesday	May 15, 2024
Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager)	Wednesday	May 22, 2024	Friday	June 28, 2024
Identified Date	Monday	May 27, 2024	Tuesday	July 2, 2024
Date by which Letter of Offer to be dispatched to the Shareholders	Monday	June 3, 2024	Tuesday	July 9, 2024
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Friday	June 7, 2024	Monday	July 15, 2024
Last date by which the committee of Independent Directors of the Target Company shall give its recommendations	Thursday	June 6, 2024	Friday	July 12, 2024
Advertisement of schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchanges and Target Company at its registered office	Friday	June 7, 2024	Monday	July 15, 2024
Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Monday	June 10, 2024	Tuesday	July 16, 2024
Date of Expiration of Tendering Period (Offer Closing Date)	Monday	June 24, 2024	Tuesday	July 30, 2024
Last date of communicating of rejection / acceptance and payment of consideration for accepted tenders / return of unaccepted shares	Monday	July 8, 2024	Tuesday	August 13, 2024
Issue of post offer advertisement	Monday	July 1, 2024	Tuesday	August 6, 2024
Last date for filing of final report with SEBI	Monday	July 15, 2024	Wednesday	August 21, 2024